

Communication Address:

Solara Active Pharma Sciences Limited

2nd Floor, Admin Block 27, Vandaloor Kelambakkam Road, Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post)

Chennai – 600 127, India Tel: +91 44 43446700 Fax: +91 44 47406190

E-mail: investors@solara.co.in

www.solara.co.in

June 24, 2024

The BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 541540

Dear Sir / Madam,

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: SOLARA

Sub: Advertisement in newspaper in respect of certain matters relating to rights issue of equity shares of the Company ("Rights Issue")

Please find enclosed newspaper advertisement published today, i.e., June 24, 2024, in respect of the 'Basis of Allotment' in relation to the Rights Issue of equity shares of the Company, published in below newspapers:

- Financial Express (English national daily newspaper with wide circulation), (i)
- (ii) Jansatta (Hindi national daily newspaper with wide circulation) and
- Navshakti (Marathi daily newspaper / Mumbai Edition). (iii)

These are also being made available on the Company's website at https://solara.co.in/investor-relations/rightsissue

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Solara Active Pharma Sciences Limited

S. Murali Krishna **Company Secretary**

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

SERIAL NUMBERS IDENTICAL

In burnt scraps, 68 questions match NEET paper: Police

RITIKA CHOPRA New Delhi, June 23

THE BIHAR GOVERNMENT'S communication to the Centre that its probe "clearly suggests a paper leak" in the NEET-UG exam is based on the fact that its Economic Offences Unit (EOU) is said to have matched 68 questions retrieved from the burnt remains of a purported photocopy of the question paper with the original one that the National Testing Agency (NTA) shared with the EOU five days ago, The Indian Express has learned.

The EOU's report, received by the Education Ministry Saturday, also states that the unique exam centre code that were recovered from the scraps of the burnt paper, which the Bihar Police seized from the house where the arrested candidates were staying, is of Oasis School, a CBSE-affiliated private school that was NTA's designated exam centre in Hazaribagh, Jharkhand. The EOU took the help of a forensics laboratory to match the burnt scraps with the original paper and its questions.

It was based on the EOU report that the Education Ministry Saturday decided to handover the investigation in the matter to CBI. "It is reiterated that any individual/organisation found to be involved will face strictest action," the Ministry had said.

What reinforces Bihar's claim of a paper leak is the fact



Students arrive at a school in Haryana's Jhajjar for the **NEET-UG retest on Sunday** EXPRESS PHOTO; ABHINAV SAHA

place of the paper leak. The that, apart from the 68 questions being exactly the same as NTA has recently shared the the original, the serial numbers chain of custody of the quesof these questions on the burnt tion paper, with the help of

Although the burnt papers were found on May 5 – the exam date -- itself when the suspected candidates were arrested, the delay at the EOU's end in matching them with the NEET-UG paper was, sources said, due to the NTA's initial reluctance to share information, especially the question paper, with the state government.

scraps and the original paper

are also identical.

However, it finally relented and started sharing information with Bihar's EOU a week

At present, the Bihar EOU is trying to identify the time and

trained to do. But one envelope, in particular, was opened at the wrong end.

Sources said that at this moment, the EOU has no evidence of collusion on the part of NTA officials. Further, the EOU has sent the digital devices and phones of the people who have been arrested to a forensics laboratory to retrieve clues as the accused had formatted their devices recently.

All the accused have testified before the police that four examinees, who are among those arrested, had memorised answers from the leaked question paper a day before the NEET-UG exam on May 5, while residing at a location in Rajbanshi Nagar. The four eventually got 581, 483, 300 and 185 marks out of 720. While only four candidates have been arrested, the EOU, based on statements of the accused, believes another 30 candidates could have benefitted from the leak and were with the four candidates at the house in Rajbanshi Nagar a

night before the exam.

Kejriwal moves SC against HC's interim stay on bail

EMBATTLED CHIEF MINISTER Arvind Kejriwal has moved the Supreme Court against the Delhi High Court's interim stay on a trial court's order granting him bail in a money laundering case linked to the alleged excise scam.

One of the lawyers of the chief minister said that they will be seeking urgent listing of the petition on Monday.

The high court on Friday paused the Kejriwal's release after the trial court granted him bail on June 20. The AAP national convener, who was arrested by the Enforcement Directorate (ED) on March 21, could have walked out of Tihar jail on Friday had the high court not granted the interim stay relief to the agency.

"Till the pronouncement of this order, the operation of the impugned order shall remain stayed," a vacation bench of the high court had said and asked the parties to file written submissions by June 24.

It had listed the plea for hearing on July 10. The court had said it was reserving the order for two-three days as it wanted to go through the entire case records.

Resurgent Oppn sharpens knives as House meets today

EXPRESS NEWS SERVICE New Delhi, June 23

THE FIRST PARLIAMENT session of the 18th Lok Sabha will begin Monday and, unlike in 2014 and in 2019, the mood in the House is expected to be different. A resurgent Opposition, united in spirit and upbeat since their numbers and heft have gone up, appears combative and is gearing up to crank up pressure on the NDA Government on several fronts, especially over the alleged irregularities related to NEET-UG and NET exams.

The government, on the other hand, appears to be in no mood to be on the backfoot. It has already shunted out the chief of the National Testing Agency (NTA) and appointed an expert committee to recommend a roadmap for examination reforms and review of the agency. On the eve of the session, which will have eight sittings and will conclude on July 3, the main opposition Congress signaled that mere shuffling of bureaucrats was not a solution and the buck stops at the doorstep of the top echelons of the government.

And it was not just the NEET-NET issue. The Opposition is also upset over the Government's



The President's Bodyguard rehearses at Vijay Chowk on Sunday. President Droupadi Murmu will address the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha on June 27

decision to appoint seven-term BJP MP Bhartruhari Mahtab as the pro tem Speaker, overlooking the claim of eight-term Lok Sabha MP from the Congress Kodikunnil Suresh. Accusing the government of flouting conventions in appointment of the pro tem speaker, the Congress has also alleged that Suresh was overlooked by the BJP dispensation as he belongs to the Dalit community. The Opposition INDIA bloc is now likely to reject the role given to Suresh and two other Opposition MPs to assist Mahtab in administering the oath to the new members.

The relocation of statues of leaders, including Mahatma Gandhi and Dr Babasaheb Ambedkar, within the Parlia ment building complex too has riled up the Opposition.

The first two days of the session will see the newly elected members taking the oath. On Wednesday, the election of the new Speaker will take place. While most of the INDIA bloc parties are not in favour of fielding a joint Opposition candidate for the post of Speaker, some Congress leaders argue that Suresh should be fielded to make a political point. There has, however, not been any discussion on this within the bloc President Droupadi Murmu will address both Houses of Parlia ment together on June 27, out

lining the government's vision.

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated May 09, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")



FROM THE FRONT PAGE

Promoters trim stakes

AMONG THE BIG deals recorded are Blackstone's ₹6,680-crore stake sale in Mphasis, a ₹3,836-crore stake sale in Whirlpool of India by its global parent and a ₹1,800-crore stake sale by Mahindra & Mahindra's promoter group.

Agrawal said promoters of some multinational companies (MNC) are also using the sky-high valuations of their India operations — relative to those of the parent company – to trim some stake. They are repatriating the funds to boost the parent's balance sheet. "Time will only tell who was smarter – promoter or fund managers," Agrawal added.



Ambareesh Baliga, an independent market analyst, believes it is natural for promoters to encash part of their wealth which is locked in as

promoter equity. "Many a times, there are other requirements like purchase of real estate or other

assets or a major expense," he pointed out.

which the EOU is retracing the

paper's journey from NTA's

custody to the Oasis school to

from the Oasis School in Haz-

aribagh two days ago provide a

vital clue. Sources said that

when the team visited the

school and picked up all the

envelopes and boxes in which

the question papers had

arrived, it was noticed that one

envelope had been cut open at

a different end. All tamper-

proof envelopes carrying ques-

tion papers are always opened

by tearing or cutting from a designated highlighted area,

which all exam staff are

For starters, its seizures

identify the leak.

Experts believe this trend will continue going ahead as well if stocks continue to command high valuations and the support from institutional investors remains intact. A senior industry executive noted that this is healthy for the ecosystem in the long run as the control of promoters comes down and professionalism increases.

"Our advice to retail investors is to keep a track of buyers in this activity. If big and reputed institutions are buyers in this process, then it increases the value for the company," he said.

IT companies log on to engineering, R&D services THESE STRATEGIC ACQUISI-TIONS are expected to also enhance their market posi-

tioning. Kishor Patil, chair of the Nasscom ER&D council, observed that cloud engineering and GenAI are reshaping ER&D, automating processes and generating insights. "Companies must invest in building products in-house, buying products that can't be developed internally and upskilling the workforce," Patil said. Keerthi Kumar, partner at Deloitte India, said that ER&D

is adopting a globally distributed service delivery model and relooking at its sourcing model to identify what would be best delivered by utilising the ecosystem, including the engineering service providers and startups.

"Companies are no longer looking to 'sell and forget' but want to continue maintaining revenue streams from customers through subscription models," he added.

"IT services growth in the near term looks challenging, so it's a diversification move by these companies," an IT analyst from a domestic broking firm said. "ER&D is expected to be a higher growth area compared to IT services, driven by investments from sectors such as automotive. Companies like KPIT and Tata Tech derive significant revenue from the auto sector, highlighting the growth potential in ER&D," he added.

The benefits of these acquisitions for IT companies are multifaceted and the growth of these companies is seen to be higher than that for traditional IT services companies.



Cloud engineering is becoming a crucial enabler for companies to stay competitive with their innovations, products and services

Further, traditional sectors such as automotive, software and healthcare are expected to drive 50% of ER&D spending. However, high-growth sectors like telecom, semiconductors and industrials will also become critical focus areas. Mega trends such as AI/generative engineering, the integration of digital layers into traditional software products, and the climate and sustainability agenda are driving increased ER&D spending.

Notably, L&T Technology Services (LTTS), a leading player in the ER&D sector, reported a 9% growth in its topline in FY24 and Cyient Group delivered a 15.6% revenue growth while most IT

companies logged muted numbers. Meanwhile, Tata Elxsi's transportation vertical rose by nearly 25% year-onyear in FY24.

Further, cloud engineering is shaping the future of ER&D, especially with the emergence of GenAI, experts said.

With a significant portion of ER&D spending now directed towards digital engineering rather than traditional engineering, cloud engineering is becoming a crucial enabler for companies to stay competitive with their innovations, products and services. GenAI has transformed ER&D by automating key processes, running simulations and interpreting large volumes of data to generate actionable insights.

Analysts believe that the impact on margins would vary, depending on the size and nature of the acquisitions though ERD margins are not significantly dilutive. While TCS and Infosys have margins of over 20%, other companies may have lower margins.

SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED

Our Company was originally incorporated under the provisions of the Companies Act, as 'SSL Pharma Sciences Limited', a public limited company, pursuant to a certificate of incorporation dated February 23, 2017, issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Solara Active Pharma Sciences Limited' pursuant to which a fresh certificate of incorporation dated March 25, 2017, was issued by the RoC. For further details of changes in name and changes in registered office, see "General Information" on page 52 of the Letter of Offer. Registered Office: 201, Devavrata, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, Maharashtra, India; Telephone: +91 22 2789 2924

Corporate Office: 2nd Floor, Admin Block 27, Vandaloor Kelambakkam Road, Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post), Chennai - 600 127, Tamil Nadu, India; Telephone: +91 44 4344 6700 Contact Person: Suddapalli Muralikrishna, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investors@solara.co.in; Website: www.solara.co.in; Corporate Identification Number: L24230MH2017PLC291636

OUR PROMOTERS: ARUNKUMAR PILLAI, K R RAVISHANKAR AND PRONOMZ VENTURES LLP

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED ("OUR COMPANY") ONLY

ISSUE OF 1,19,98,755 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 375,00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 365.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 449.95 CRORE* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY THREE FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON MAY 15, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 233 OF THE LETTER OF OFFER. *Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

PAYMENT METHOD FOR RIGHTS EQUITY SHARES

AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE*	Face Value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application	3.50	127.75	131.25
Additional calls as may be decided by our Board/Rights Issue Committee from time to time	6.50	237.25	243.75
Total (₹)	10.00	365.00	375.00

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on May 28, 2024 and closed on June 11, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was June 05, 2024. Out of the total 9,374 Applications for 1,73,82,868 Rights Equity Shares, 760 Applications for 4,12,673 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 8,614 for 1,69,70,195 Rights Equity Shares, which was 141.43% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on June 19, 2024, by our Company in consultation with BSE, the Designated Stock Exchange, the Lead Manager to the Issue and the Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee has at its meeting held on June 19, 2024, approved the allotment of 1,19,98,755 Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment. In the Issue, Nil Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Applications	Received		and allotted against additional Rights Equity Shares applied (B)	and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	8,304	90,42,526	23,56,894	1,13,99,420
Renouncees	310	5,99,335		5,99,335
Total	8,614	96,41,861	23,56,894	1,19,98,755

Category

- magazi	raje princes in the same		regime adamy arrang alabanan iar			togue adord street attende		
S100	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	8,571	91.43	1,63,36,652	2,14,41,85,575	93.98	8,304	1,13,99,420	95.01
Renouncees	803	8.57	10,46,216	13,73,15,850	6.02	310	5,99,335	4.99
Total	9,374	100.00	1,73,82,868	2,28,15,01,425	100.00	8,614	1,19,98,755	100.00

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on June 21, 2024. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on June 18, 2024. The listing approvals from both the BSE and NSE on June 19, 2024. The Company received the listing approvals from both the BSE and NSE on June 20, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on June 21, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice / Unblocking of ASBA Accounts" on page 233 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about June 25, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on June 21, 2024.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of SEBI as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on pages 225-228 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures -Disclaimer Clause of the BSE" on pages 228 and 229 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the Contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the NSE" on page 229 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of NSE.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

SEBI Registration No.: INM000011872

Place: Navi Mumbai

Date: June 22, 2024

Choice Capital Advisors Private Limited Sunil Pataodia Tower, Plot No. 156-158, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6707 9999 / 7919;

E-mail: solara.ri@choiceindia.com Investor Grievance E-mail: regulator_advisors@choiceindia.com Contact Person: Nimisha Joshi / Mahima Shivratriwar Website: www.choiceindia.com/merchant-investment-banking.

Cameo Corporate Services Limited Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India

Telephone: 044 - 4002 0700: E-mail: rights@cameoindia.com Investor Grievance E-mail: https://wisdom.cameoindia.com

Contact Person: K. Sreepriya Website: www.cameoindia.com SEBI Registration No.: INR000003753 Suddapalli Muralikrishna

2nd Floor, Admin Block, 27, Vandaloor Kelambakkam Road,

Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post), Chennai 600 127 Tamil Nadu, India. Telephone: + 91 44 4740 6700; Email: muralikrishna@solara.co.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post – Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a

copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 233 of the LOF.

For SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED


On behalf of the Board of Directors

Suddapalli Muralikrishna Company Secretary and Compliance Officer

SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares and has in this regard, filed a Letter of Offer dated

May 09, 2024 (the "LoF") with BSE, NSE and SEBI. The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking, website of the Company at www.solara.co.in and website of the Registrar at https://rights.cameoindia.com/solara. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" on page 21 of the LOF. The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered, sold, resold or

otherwise transferred within the United States, except pursuant to a an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Rights Entitlements and the Equity Shares may not be re-offered, resold, pledged or otherwise transferred except in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act. The offering to which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Letter of Offer, Rights Entitlement Letter and the Application Form should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.



खुद्रा आस्ति केन्द्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, द्वितीय तल, ऑई—14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)—201301, कार्पोरेट कार्यालय : 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई–400 025 पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पिटत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतदद्वारा कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित तिथियों को ले

कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम :- मैसर्स लोहिया ऑटोमोबाइल्स (एचईसी की एक यूनिट) एक पार्टनरशिप फर्म इसके पार्टनर्स के माध्यम से श्री सज्जन कुमार लोहिया पुत्र श्री रामरूप लोहिया एवं गोविंद लोहिया पुत्र श्री सज्जन कुमार लोहिया एवं राजेश लोहिया पुत्र श्री सज्जन कुमार लोहिया सभी निवासी अजमेर रोड, निकट चुंगी चौकी भीलवाडा, राजस्थान—311001, श्री सज्जन कुमार लोहिया पुत्र श्री रामरूप लोहिया एवं गोविंद लोहिया पुत्र श्री सज्जन कुमार लोहिया दोनों निवासी डी–42, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान–311001, राजेश लोहिया पुत्र श्री सज्जन कुमार लोहिया निवासी ई-48, साइंस पार्क के सामने, शास्त्री नगर, जिला जयपुर, राजस्थान-302016, हिन्दस्तान इंजीनियरिंग कम्पनी, एक पार्टनरशिप फर्म इसके पार्टनर्स के माध्यम से श्री सज्जन कुमार लोहिया पुत्र श्री रामरूप लोहिया एवं गोविंद लोहिया पुत्र श्री सज्जन कुमार लोहिया एवं राजेश लोहिया पुत्र श्री सज्जन कुमार लोहिया सभी निवासी अजमेर रोड, निकट चुंगी चौकी भीलवाड़ा, राजस्थान–311001.

सम्पत्ति का वर्णन :- सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति भृमि/अचल व्यावसायिक भवन (शोरूम), स्थित ग्राम–भावा, तहसील एवं जिला राजसमंद, अराजी नंबर 1967/905, परिमाप 932 वर्ग मीटर, जो श्री राजेश लोहिया एवं श्री गोविंद लोहिया के नाम है तथा जिसकी चौहददी निम्नानुसार है :-पूरब : डीड के अनुसार, पश्चिम : डीड के अनुसार, दक्षिण : डीड के अनुसार, उत्तर : डीड के अनुसार,

मांग सूचना में राशि (रू.) :- रू. 15,21,82,345.61 / - (रूपए पंद्रह करोड़ इक्कीस लाख बयासी हजार तीन सौ पैंतालीस तथा पैसे तिथि 18-06-2024 | इकसठ मात्र) 17-10-2023

उपरि–वर्णित कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि

वे उक्त बकाया राशि 30 दिन के भीतर चकता कर दें अन्यथा बिक्री सचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन

की अवधि समाप्त होने पर बंधक सम्पत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के

तहत प्रावधानों के अनुसार बेची जाएंगी। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नोएडा, तिथि : 24–06–2024 कृते एक्सिस बैंक लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Protium

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

निरलोन नॉलेज पार्क (एनकेपी) बी–2, सातवीं मंजिल, पहाड़ी गांव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (ई), मुंबई, महाराष्ट्र– 400063

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत) वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की सेवा प्रतिस्थापित की गई

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और उससे पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) से उनके द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनकी ऋण सुविधा को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी की पुस्तकों में गैर–निष्पादित संपत्ति कें रूप में वर्गीकत किया गया है। इसके बाद, एनबीएफसी ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर प्रतिभतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (सरफेसी) अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ता को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसके तहत उनसे आह्वान किया गया है और उनसे मांग की गई है कि वे संबंधित नोटिस/नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करें हालाँकि, यह सेवा हमारे द्वारा इस प्रकाशन के माध्यम से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार भी की जा रही है।

उधारकर्ता और सह उधारकर्ता/ओं	ऋण खाता	एनपीए	मांग	नीचे दी गई तिथि तक कुल
का नाम और पता	संख्या	की	सूचना	बकाया राशि (भारतीय रुपये में)*
		तिथि	की तिथि	
1. शुभम एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता)	GS002	3—जून	15	⊽ . 8578599.4 ∕ —
2. मनमोहन कुमार 3. ज्योति कुमार (सह—उधारकर्ता), प्लॉट नंबर एफ 33, औद्योगिक	LAP	-24	जून	(रुपये पचासी लाख
क्षेत्र, कोसी कोटवन एक्सटेंशन, मथुरा, उत्तर प्रदेश — 281403 औद्योगिक प्लॉट नंबर	1784297		2024	अठहत्तर हजार पांच सौ
एफ— 33 पर भी, क्षेत्रफल 742.50 वर्ग मीटर, कोसी कोटवन एक्सटेंशन — 1, परंगा				निन्यानवे और चालीस पैसे
/ तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र हाउस नंबर 1831				मात्र) 12 जून 2024 तक
तीसरी मंजिल, आउटरम लेन, जीटीबी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली में भी में स्थित है।			,	

सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः — औद्योगिक भूखंड संख्या एफ—33, क्षेत्रफल 742.50 वर्ग मीटर, कोसी कोटवन एक्सटेंशन 1, परंगना / तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।

1. इंडस्टियल मेटल कॉर्पोरेशन (उधारकर्ता) ₹. 10383790.51 / -**GS002** 3—जून 2. नीतू आर्यन 3. राजेश कुमार आर्यन (सह-उधारकर्ता), बी-102, फेज-।, मायापुरी (रुपये एक करोड़ तीन LAP औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली – 110064 यहां भीः डीडीए एमआईजी फ्लैट नंबर 353, ग्राउंड लाख तिरासी हजार सात 465843 फ्लोर, मेट्रो अपार्टमेंट, जहांगीरपूरी, नई दिल्ली – 110 033 यहां भीः डीडीए एमआईजी सौ नब्बे और ईक्यावन पैसे फ्लैट नंबर 356, पहली मंजिल, मेट्रो अपार्टमेंट, जहांगीरपूरी, नई दिल्ली - 110 033 मात्र) 12 जून 2024 तक यहां भीः बीई- 342एफ / एफ, गली नंबर 6, हिर नगर, दिल्ली - 110 064

सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्तियों का विवरणः— डीडीए एमआईजी फ्लैट नंबर 353, भूतल और डीडीए एमआईजी फ्लैट नंबर 356, प्रथम तल, मेट्रो अपार्टमेंट, जंगीरपुरी, नई दिल्ली – 110 033 हम यहां उल्लिखित उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं,

जो कि जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में विशेष रूप से उल्लिखित है, साथ ही उस पर आगे ब्याज और लागत, शुल्क, व्यय आदि। ऐसा न करने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) / अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो कि उधारकर्ता (ओं) / सह उधारकर्ता (ओं) / कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) / कानूनी प्रतिनिधि (ओं) के जोखिम पर पूरी तरह से सुरक्षित संपत्ति को कब्जे में लेने और बेचने तक सीमित नहीं है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा

का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और / या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा। हस्ता/-

दिनांकः 24.06.2024 स्थानः दिल्ली-एनसीआर प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिए, अधिकृत अधिकारी

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated May 09, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED

Our Company was originally incorporated under the provisions of the Companies Act, as 'SSL Pharma Sciences Limited', a public limited company, pursuant to a certificate of incorporation dated February 23, 2017, issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Solara Active Pharma Sciences Limited' pursuant to which a fresh certificate of incorporation dated March 25, 2017, was issued by the RoC. For further details of changes in name and changes in registered office, see "General Information" on page 52 of the Letter of Offer.

Registered Office: 201, Devavrata, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, Maharashtra, India; Telephone: +91 22 2789 2924

Corporate Office: 2nd Floor, Admin Block 27, Vandaloor Kelambakkam Road, Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post), Chennai - 600 127, Tamil Nadu, India; Telephone: +91 44 4344 6700 Contact Person: Suddapalli Muralikrishna, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investors@solara.co.in; Website: www.solara.co.in; Corporate Identification Number: L24230MH2017PLC291636

OUR PROMOTERS: ARUNKUMAR PILLAI, K R RAVISHANKAR AND PRONOMZ VENTURES LLP

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED ("OUR COMPANY") ONLY ISSUE OF 1,19,98,755 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 375.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 365.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 449.95 CRORE® ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY THREE FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE. THAT IS, ON MAY 15, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 233 OF THE LETTER OF OFFER.

Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares. PAYMENT METHOD FOR RIGHTS EQUITY SHARES AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE Total (₹) Face Value (₹) Premium (₹) 127.75 131.25 On Application Additional calls as may be decided by our Board/Rights Issue Committee from time to time 6.50 237.25 243.75 10.00 365.00 375.00

For further details on Payment Schedule, see "Terms of the Issue" on page 233 of the Letter of Offer.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on May 28, 2024 and closed on June 11, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was June 05, 2024. Out of the total 9,374 Applications for 1,73,82,868 Rights Equity Shares, 760 Applications for 4,12,673 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 8,614 for 1,69,70,195 Rights Equity Shares, which was 141,43% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on June 19, 2024, by our Company in consultation with BSE, the Designated Stock Exchange, the Lead Manager to the Issue and the Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee has at its meeting held on June 19, 2024, approved the allotment of 1,19,98,755 Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment, In the Issue, Nil Rights Equity Shares have been kept in abeyance,

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Applications	Number of Valid Application Received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against additional Rights Equity Shares applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	8,304	90,42,526	23,56,894	1,13,99,420
Renouncees	310	5,99,335		5,99,335
Total	8,614	96,41,861	23,56,894	1,19,98,755

2. Information regarding total Applications received:

Category	Applications Re	Applications Received		Rights Equity Share applied for			Rights Equity Share allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%	
Eligible Equity Shareholders	8,571	91.43	1,63,36,652	2,14,41,85,575	93.98	8,304	1,13,99,420	95.01	
Renouncees	803	8.57	10,46,216	13,73,15,850	6.02	310	5,99,335	4.99	
Total	9,374	100.00	1,73,82,868	2,28,15,01,425	100.00	8,614	1,19,98,755	100.00	

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice curn Refund Intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on June 21, 2024. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on June 18, 2024. The listing applications were filed with both the BSE and NSE on June 19, 2024. The Company received the listing approvals from both the BSE and NSE on June 20, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on June 21, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice / Unblocking of ASBAAccounts" on page 233 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about June 25, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the

request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on June 21, 2024. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of SEBI as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on pages 225-228 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures -Disclaimer Clause of the BSE" on pages 228 and 229 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the NSE" on page 229 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of NSE.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

REGISTRAR TO THE ISSUE

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

Choice Capital Advisors Private Limited Sunil Pataodia Tower, Plot No. 156-158, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6707 9999 / 7919; E-mail: solara.ri@choiceindia.com

Investor Grievance E-mail: regulator_advisors@choiceindia.com Contact Person: Nimisha Joshi / Mahima Shivratriwar Website: www.choiceindia.com/merchant-investment-banking SEBI Registration No.: INM000011872

Cameo Corporate Services Limited Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India Telephone: 044 - 4002 0700:

SEBI Registration No.: INR000003753

E-mail: rights@cameoindia.com Investor Grievance E-mail: https://wisdom.cameoindia.com Contact Person: K. Sreepriya Website: www.cameoindia.com

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Suddapalli Muralikrishna

2nd Floor, Admin Block, 27, Vandaloor Kelambakkam Road, Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post), Chennai 600 127 Tamil Nadu, India. Telephone: + 91 44 4740 6700; Email: muralikrishna@solara.co.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post - Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demail account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 233 of the LOF,

> For SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED On behalf of the Board of Directors

Suddapalli Muralikrishna Place: Navi Mumbai Date: June 22, 2024 Company Secretary and Compliance Officer

SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares and has in this regard, filed a Letter of Offer dated May 09, 2024 (the "LoF") with BSE, NSE and SEBI. The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking, website of the Company at www.solara.co.in and website of the Registrar at https://rights.cameoindia.com/solara.Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" on page 21 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except pursuant to a an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Rights Entitlements and the Equity Shares may not be re-offered, resold, pledged or otherwise transferred except in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act. The offering to which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Letter of Offer / Abridged Letter of Offer, Rights Entitlement Letter and the Application Form should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.

H

HINDUJA

HOUSING FINANCE

सार्वजनिक

नोटिस

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय : नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015 शाखा कार्यालय : द्वितीय तल, एससीओ-19, सेक्टर-28, सरस्वती विहार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चक्करपुर, (एम. जी. रोड मेट्रो स्टेशन के समीप), जुड़गांव, हरियाणा - 122001

एएलएम - श्री प्रमोद चंद, 9990338759

सांकेतिक अधिग्रहण सचना

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की सं. 3) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न तालिका में प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तथा यहां इसमें इसके उपरांत उल्लिखित तिथियों पर ऋणकर्ताओं को एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिस में ऋणकर्ता (यहां इसमें इसके उपरांत ऋणकर्ता तथा गारंटरों जिन्हें सामूहिक रूप में ''ऋणकर्ताओं'' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिमुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ं यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्षे अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा राशि पर आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदागत दर पर भवी ब्याज हेतु **हिंदुजा** ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर निमंत्रित किया जाता है।

91	olicii (c)		11.	Q
	ऋणकर्ताओं / गारंटरों	मांग सूचना तिथि अधिग्रहण की तिथि	बकाया	अचल संपत्ति के विवरण
	के नाम	आधग्रहण का ।ताथ	राशि	
	HR/GGN/FRBD/A000000958	27-09-2023	₹.	संपूर्ण आवासीय संपत्ति / ड्वेलिंग यूनिट स्थल सं. 1, प्रथम
	श्री करमवीर प्रकाश,	18-06-2024	73,27,772 / —	तल पर, बिना छत के अधिकारों के, अधि क्षेत्रफल लगभग
	श्रीमती कौशल्या करमवीर,	सांकेतिक	दिनांक	1408 वर्ग फुट (130.81 वर्ग मीटर), प्लॉट नं. 83 पर निर्मित
	दोनों का पता : प्लॉट नं. 83, ब्लॉक—3,		19-09-2023 के	विला, ब्लॉक—।।।, प्लॉट एरिया मापन २१२ वर्ग गज, ब्लॉक
	प्रथम तल, सूरजकुंड रोड, इरोज गार्डन			।।।, इरोस गार्डन कॉलोनी, सूरज कुंड रोड में, ग्राम लकड़पुर
	कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा—121009		राशि पर ब्याज	की राजस्व संपदा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है।
				सीमायें : उत्तर–पूर्व : प्लॉट नं. 82 / ।।।, दक्षिण–पूर्व : 45
				फुट चौड़ी सड़क, उत्तर—पश्चिम : प्लॉट नं. 69/111,
1		4		दक्षिण-पश्चिम : प्लॉट नं. 84 / ।।।
		44 40 0000		

		07 00 0000	10	
2.	HR/GGN/FRBD/A000001121 CO/CPC/CPOF/A000001346 श्री अजय लांबा, श्रीमती सुशीला देवी उपनाम सुशीला देवी, श्री मुंशी मुंशी, श्रीमती सुषमा लांबा, सभी का पता : मकान नं. 485/1, 142, लांबा मोहल्ला, दयानंद स्कूल के समीप, मुजेसर, सेक्टर-22, फरीदाबाद, हरियाणा-121005	11—12—2023 21—06—2024 सांकेतिक	रु. 36,98,769 / – दिनांक 24–11–2023 के अनुसार, साथ में राशि पर ब्याज	संपत्ति / प्लॉट / भूमि नं. 122 / 8, भूमि क्षेत्रफल 210 वर्ग गज अर्थात् 45 फुट ग 42 फुट, खसरा एमयू. नं. 44 का भाग, किला नं. 9 / 2 / 1 / 1, ग्राम मुजेसर, उप—तहसील गौंची, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। सीमायें :— पूर्व : बोबल का घर, पश्चिम : सड़क 11 फुट, उत्तर : जसवंत सिंह का घर, दक्षिण : मंगल सिंह का घर।
				सीमायें : उत्तर—पूर्व : प्लॉट नं. 82 / ।।।, दक्षिण—पूर्व : 45 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर—पश्चिम : प्लॉट नं. 69 / ।।।, दक्षिण—पश्चिम : प्लॉट नं. 84 / ।।।

27-09-2023 1. 60.3 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली एक संपत्ति/घर/प्लॉट, DL/BDP/BDRP/A000000545 खसरा नं. 1301/89 में समाविष्ट, विजय पार्क, नगर निगम 63,56,485 / -CO/CPC/CPOF/A000000689 18-06-2024 दिनांक श्री वीरेंद्र गुप्ता, श्रीमती विमला देवी सांकेतिक गुरुग्राम के अंदर, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में और श्रीमती विनीता गुप्ता और 13-09-2023 के स्थित। सीमायें :- पूर्व : विमला की संपत्ति, पश्चिम : अन्य अनुसार, साथ में |का प्लॉट, उत्तर : सड़क 30 फुट, दक्षिण : रिक्त भूखंड। रोहित गुप्ता, राशि पर ब्याज **सभी का पता :** मकान नं. 155/3/11, 2. एक संपत्ति / घर / प्लॉट नं. 16 / 17 रकबा 40 वर्ग गज, प्रताप नगर, विजय पार्क के समीप, खसरा नंबर 1301 / 89 में समाविष्ट, विजय पार्क, नगर निगम गुड़गांव, हरियाणा-122001 गुरुग्राम के अंदर, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित। सीमायें :— पूर्व : प्लॉट नं. 17, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : सड़क 30 फुट, दक्षिण : रिक्त संपत्ति। 3. एक संपत्ति / घर / प्लॉट किता —1 रकबा 23 वर्ग गज, खसरा नंबर 1301/89 में समाविष्ट, विजय पार्क, नगर निगम गुरुग्राम के अंदर, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित। सीमायें :– पूर्व : विमला की संपत्ति, पश्चिम : अन्य

की संपत्ति, उत्तर : सड़क 30 फुट, दक्षिण : रिक्त संपत्ति। प्लॉट खेवट नं. 51/75, 52/76, खसरा नं. 924/734 HR/NCH/GURH/A00000045 14-08-2023 HR/NCH/GURH/A000000738 (1—13) और 929 / 735 (1—12) कुल 3 बीघा 5 बिस्वा जो 18-06-2024 20,36,280 / -श्री मनोज कुमार, सांकेतिक | 13 / 1300वें अंश का 0 बीघा 0 बिस्वा 13 बिस्वांसी (100 वर्ग श्री मनीषा देवी, 11–08–2023 के | गज), ग्राम बसई गुड़गांव, तहसील और जिला गुड़गांव, दोनों का पता : मकान नं. 6, गली नं. 2, अनुसार, साथ में |हरियाणा—122001 में स्थित है। सीमायें :- पूर्व : भूपेंद्र, बसई एन्क्लेव पार्ट-2, गुड़गांव, गौशाला रामानंद, पश्चिम : रास्ता 20 फूट चौड़ा, उत्तर : पालेश्वर, और मैरिज लॉन के समीप, गुड़गांव, दक्षिण : स्वयं क्रेता। हरियाणा-122001 20-12-2023 गमित्वधारक आवासीय संपूर्ण द्वितीय तल, छताधिकारों वे 76.35.891 / बिना, संपत्ति नं. डी-111 पर निर्मित, भूमि क्षेत्राधिमापन 200 श्री संजीव भुनिया, 20-06-2024 वर्ग गज, खसरा नं. 308 के अंतर्गत निर्धारित, ब्लॉक-डी, ग्राम

सांकेतिक

श्रीमती जयंती भूनिया,

दोनों का पता: प्लॉट नं.-डी-111,

ब्लॉक–डी, द्वितीय तल, अजय एन्क्लेव,

ग्राम तिहाड़, नई दिल्ली–110018

राशि पर ब्याज बि–110, उत्तर : 3 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण : 15 फूट चौड़ी सर्विस लेन। दिनांक : 24-06-2024, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक

30—11—2023 के तिहाड़ के अजय एन्क्लेव, नई दिल्ली—110018 में स्थित है।

अनुसार, साथ में सीमायें :- पूर्व : संपत्ति सं. डी-112, पश्चिम : संपत्ति सं.



टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पता : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनस्ला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मूंबई - 400013, शाखा पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर - पार्ट २, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली 110024

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूर्नार्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी सचना

एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता तथा / सह-उधारकर्ता, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों (उधारकर्ताओं) को विशिष्ट रूप में सचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 25-07-2024 को ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है", "वहां जो कुछ भी है" एवं "बिना किसी रिकोर्स" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ताओं की ओर बकाया देयराशियों की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन / समापन के अभाव में, उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति / संपत्ति का विक्रय ई—नीलामी द्वारा उक्त 25—07—2024 को अप. 2.00 बजे किया जायेगा। ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिये धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा, टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के पास 24-07-2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा के पते, टाटा कैंपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी—36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर — पार्ट 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली—110024 पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

प्रतिभृत परिसंपत्ति / अचल संपत्ति का विक्रय, यहां इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार ''जैसी है जहां है अवस्था'' पर आधारित होगा

क्र. सं.		उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/ विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/ विधिक प्रतिनिधि/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	अधिग्रहण का प्रकार
1.	9419126	श्री रवि रंजन सिन्हा पुत्र श्री राय राधिका रमण सिन्हा श्रीमती अनुश्री सिन्हा पत्नी श्री रवि रंजन सिन्हा	रु. 12,24,589 ∕ − −−−−−− 22−08−2023	रु. 12,78,000 / – (रुपये बारह लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र)	रु. 1,27,800 / – (रुपये एक लाख सत्ताईस हजार आठ सौ मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण : सं. 9 धारक आवासीय फ्लैट के समस्त वह भाग तथा अंश जो द्वितीय तल, एलआईजी, ब्लॉक-एफ8, पॉकेट-03, सेक्टर जी-8, नरेला, नई दिल्ली-110040 में स्थित है।

2.	TCHHL03	1.स्वर्गीय सुजीत कुमार पुत्र श्री कमल सिंह	₹. 4,91,153 / —	₹.	₹.	भौतिक
-500	70000100	वर्मा – उधारकर्ता (अब दिवंगत) अपने	(रुपये चार लाख इक्यानबे हजार एक सौ	8,10,000 /-	81,000 /-	
ı	070470 &	कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से	तिरेपन मात्र) ऋण अनुबंध संख्या	(रुपये आठ	(रुपये	
ı	TCHIN03	i. श्रीमती मछला देवी पत्नी स्वर्गीय सुजीत	TCHHL0370000100070470 के अंतर्गत	लाख दस	इक्यासी	
ı	70000100	कुमार,	आपके द्वारा देय तथा भुगतानयोग्य है तथा	हजार मात्र)	हजार	
ı	070861	ii- श्री अन्नू वर्मा पुत्र स्वर्गीय सुजीत	হ . 43,183 ∕−		मात्र)	
ı		कुमार,	(रुपये तैतालीस हजार एक सौ तिरासी मात्र)			
ı		iii- श्री आशीष वर्मा पुत्र स्वर्गीय सुजीत	ऋण अनुबंध संख्या			
ı		कुमार,	TCHIN0370000100070861 के अंतर्गत			
ı		iv- श्री अर्जुन वर्मा पुत्र स्वर्गीय सुजीत	आपके द्वारा देय तथा भुगतानयोग्य है, अर्थात			
ı		कुमार, श्रीमती मछला देवी पत्नी स्वर्गीय	कुल मिलाकर			
ı		सुजीत कुमार – सह–उधारकर्ता / कानूनी	₹. 5,34,336 /-			
ı		वारिस श्री अन्नू वर्मा पुत्र स्वर्गीय सुजीत	(रुपये पाँच लाख चौंतीस हजार तीन सौ			
ı		कुमार – कानूनी वारिस, श्री आशीष वर्मा	छत्तीस मात्र)			
ı		पुत्र स्वर्गीय सुजीत कुमार – कानूनी वारिस				
ı		श्री अर्जुन वर्मा पुत्र स्वर्गीय सुजीत कुमार –	04-07-2023			
ı		काननी वारिस				

अचल संपत्ति का विवरण : नगर निगम सं. 46/98/आर/5ए धारक आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश, अधिमापन 50 वर्ग गज अर्थात् 41.80 वर्ग मीटर (साइडस- पर्व : 30', पश्चिम : 22'-11", उत्तर : 22', दक्षिण : 8'-6"), खसरा सं. 228 में समाहित, भीम नगर के रूप में विदित आवासीय कॉलोनी, जगदीशपुरा, वार्ड लोहामंडी, तहसील और जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित, विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ, निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व- श्री किशन लाल की भूमि, पश्चिम- रास्ता तथा निकास (8' चौडा), उत्तर- रास्ता और निकास (20' चौडा), दक्षिण– श्रीमती द्रौपदी का घर।

नीलामी में. जनसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी बोली(लियां) जमा / प्रस्तत करने के लिए निमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) को एतदद्वारा इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के अंदर भावी ब्याज के साथ कुल बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अंतिम अवसर का लाभ उठाकर भुगतान करने में विफल रहने पर अचल संपत्ति को अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा। ई-नीलामी उस स्थिति में भी रोक दी जाएगी, यदि ब्याज एवं लागतों (विक्रय की लागत सहित) के साथ उपर्युक्तानुसार देय राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' को भूगतान कर दी जाती है अथवा अधिकारी की संतुष्टि हेतु इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभृत ऋण व इसके ब्याज एवं लागतों की राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया गया है।

कोर्ट भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो दस विकय के संबंध में कोर्ट भी कार्य-दायित्व निभा रहा है यहापि वह कार्य-दायित्व को पत्यक्ष अथवा अपत्यक्ष रूप में ही क्यों न निभा रहा हो, वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई अचल संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर

विक्रय जो है, वह प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित भावी शर्तों के अधीन होगा :

टिप्पणी : ई-नीलामी, पोर्टल ीजजचेरूध्ध्इंदांनबजपवदेण्पदध के माध्यम से 25-07-2024 को अप. 2.00 बजे से लेकर के अप. 3.00 बजे तक 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ संचालित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : (1) यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता

अधिकारी से संपर्क करना चाहिये।

इस उद्घोषणा में हुई / होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथवा बोलीदाता से संबंधित, किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अचल संपत्ति की एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। (2) अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000 / - (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) संपत्ति के क्रयार्थ जमा / प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि "टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि." के पक्ष में आहरित शाखा पते पर भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदााओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से धराज के भुगतान हेतु कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह बोलीदान हेतु विधिक रूप में सदैव अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा हो। (6) अभिलेखित कारणों के लिए यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें / उसे समाप्त कर दें। (7) अचल संपत्ति का अवलोकन जो है वह पूर्व अनुमति प्राप्त करके 18–07–2024 को 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच किया जा सकता है। (8) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को ऐसी घोषणा के बाद तत्काल, क्रयराशि / बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। (9) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रयराशि की शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय के पुष्टिकरण की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वें दिवस के बाद आनेवाले प्रथम कार्यालय दिवस में करना होगा। (10) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जायेगा। (11) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेतु संपत्ति है : उपरोक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं– सपंत्ति कर के बकायों, विद्युत इत्यादि के बकायों सहित संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच-पड़ताल कर लें। (12) किसी अन्य विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित बोलीदातागण, सेवा प्रदाता, मैसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, 6ठवां तल, मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद – 500038 के पते पर इसके समन्वयक श्री अरिजित कुमार दास, 8142000725, 8142000066, 8142000062, ईमेल : arijit@bankauctions.in और ईमेल : info@bankauctions.in अथवा श्री मनीष बंसल को उनकी ई-मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नं. 8588983696 से समन्वयन कर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को व्हाट्सऐप नंबर – 9999078669 पर प्रेषित करें। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भुगतान को स्वामी / उधारकर्ता(ओं) के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपनी के पास जमा / प्रस्तुत करनी होगी। (14) उपरोक्त विवरणों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक http://surl.li/ukgic का संदर्भ ग्रहण करें। (15) कृपया लिंक : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html को भी देखें।

कपया नोट करें – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विक्रय / नीलामी के लिए उक्त वर्णित नीलामकर्ता साझीदार के अलावा किसी अन्य ब्रोकर / एजेंट को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षकारों को इस विषय के संबंध में पुछे जानेवाले समस्त प्रश्नों एवं पूछताछों के लिये केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृत

स्थान : दिल्ली राराक्षे तथा उत्तर प्रदेश हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 24-06-2024

www.readwhere.com

श्री. गुलाबराय जयंतीलाल मेहता (गुलाबराय), ''दि न्यु चंद्रोदय को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. चे सभासद, पत्ता येथे, १५२, भानुशाली लेन, टिळक नगर, घाटकोपर पूर्व, मुंबई ४०००७७ आणि सोसायटीच्या इमारतीमधील फ्लॅट क्र. ए-५ धारक यांचे २९ मार्च, १९९८ रोजीस निधन झाले आणि त्यांच्या जीवन काळात नामनिर्देशन दाखल केले होते. त्यानंतर सोसायटीने नामनिर्देशनाला अनुसरून श्रीम. पुष्पा रमणिकलाल मेहता यांच्या नावे शेअर प्रमाणपत्रांचे हस्तांतर केले. नामनिर्देशित व्यक्ती श्रीम. पुष्पा रमणिकलाल मेहता यांचे १७ सप्टेंबर, २०२१ रोजीस कोणतेही नामनिर्देशन न करता निधन झाले. श्री. हेमंत रमणिकलाल मेहता यांनी आता सोसायटीच्या सभासदत्वासाठी एक अर्ज दिला आहे आणि त्यांचे नावे शेअर हस्तांतर करण्याची विनंती केली आहे.

सोसायटी याद्वारे सोसायटीच्या भांडवल/ मिळकतीमधील मयत सभासदाचे सदर शेअर्स आणि हितसंबंधाचे हस्तांतर होण्यास एकतर गुलाबराय किंवा नामनिर्देशित व्यक्ती पष्पा रमणिकलाल मेहता यांचे वारस किंव -वारसदार किंवा इतर दावेदार/आक्षेपदार किंवा आक्षेप घेणारे यांच्याकडून दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते सदर सूचनेच्या प्रसिध्दीपासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या कालावधीत सोसायटीच्या

भांडवल/मिळकतीमधील सभासदाच्या सदर शेअर्स आणि हितसंबंधाच्या हस्तांतरणासाठी /त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या दाव्या / आक्षेपांच्या पृष्ठ्यर्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पराव्यांच्या प्रतींसह मागवित आहे. वर दिलेल्या मुदतीत जर दावे/आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत. तर सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदीमधील दिलेल्या मार्गाने सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील प्रयुव प्रभागताचे शेथर्प व दिवसंबंधाचे हस्तांतर करण्यास सोसायटी मोकळी असेल. जर. भांडवल/मिळकतीमधील

सभासदाच्या शेअर्स आणि हितसंबंधाच्या हस्तांतरणास काही दावे / आक्षेप सोसायटीने प्राप्त केले तर, सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार त्यावर सोसायटी कार्यवाही करेल. सोसायटीच्या नोंदणीकृत उपविधीची प्रत दावेदार/आक्षेपकांद्रारे निरीक्षणासाठी सोसायटीचे कार्यालय/सोसायटीचे सचिव यांचेकडे स. ११.३० ते दु. ०४.०० वाजेपर्यंत सदर सूचना प्रसिध्दीच्या तारखेपासून तिच्या कालावधी समाप्तीच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध आहे.

न्यु चंद्रोदय को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड करिता आणि च्यावतीने सचिव

ठिकाण: मुंबई, दिनांक: जून २४, २०२४

सारस्वत सार बँक सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि

वसुली विभाग: ७४-सी, समाधान बिल्डिंग, २ रा मजला, सेनापती बापट मार्ग, (तुलसी पाईप रोड), दादर (प.), मुंबई-४०० ०२८ **फोन क्र.:** +९१ २२ २४२२ १२०२/०४/०६/११ फॅक्स क्र.: + ९१ २२ २४३८१३१०

परत मागवणारी सूचना

१. मे. हरिक्रिष्णा राईस ट्रेडर्स

प्रोप्रा: श्री. जमनालाल मूलजी ठक्कर (मुख्य कर्जदार)

- जी १, जय जानकी सीएचएस, माऊली मंडळ, धोबी आळी, चरई, ठाणे (पश्चिम)- ४०० ६०१ २. श्री. प्रविण जेठालाल निसार (हमीदार)
- २०२, नूतन आनंद अपार्टमेंट, एडुजी रोड, काबड आळी, चरई, ठाणे (पश्चिम)- ४०० ६०१ ३. श्री. रतिलाल विशनजी मजेठिया (हमीदार)

. ०३, एकवीरा अपार्टमेंट, सरस्वती स्कूल जवळ, टेकडी बंगला, नौपाडा, ठाणे प.– ४०० ६०२ संदर्भ :- मे. हरिक्रिष्णा राईस ट्रेडर्स यांना मंजुर केलेली क्रेडिट सुविधा परत मागवणे

तुम्ही, प्रेषिती क्र. १ **मे. हरिक्रिष्णा राईस ट्रेडर्स** यांनी आमच्या **मुलुंड पश्चिम शाखेकडे** काही क्रेडिट सुविधाकरिता अर्ज केला होता. तुम्ही पतसुविधा घेण्यासाठी आमच्या शाखेचे सभासद बनलात. तुमच्या अर्जाला अनुसरून बँकेच्या सभासदाच्या क्षमतेत बँकेने तुमच्या सादरीकरणावर विश्वास ठेवून तुमची विनंती स्वीकारली आणि तुम्ही रितसर स्वीकारलेल्या अशा मंज्रीच्या अटींच्या अंतर्गत कळवल्यानुसार ठराविक अटी आणि शर्तीच्या अधीन रु. १,७५,००,०००/-(रुपये एक कोटी पंच्याहत्तर लाख मात्र) कर्ज खाते क्र. ९०२६५००१००००४७३७ चे क्रेडिट

सुविधा अंतर्गत कॅश क्रेडीट सुविधा मंजूर केली. कर्जदार म्हणून तुम्ही सदर मंजुरीच्या सर्वे अटी आणि शर्ती स्वीकारल्यात आणि त्याअंतर्गत देय पुढील परिव्यय, प्रभार आणि खर्च आणि व्याजासह सदर पतसुविधांच्या थकीत परताव्याकरिता . बँकेसह विविध कर्ज दस्तावेज निष्पादित केलेत

श्री. प्रविण जेठालाल निसार आणि रतिलाल विशनजी मजेठिया, प्रेषिती क्र. २ आणि श यांनी बँकेच्या नावे हमीपत्र निष्पादित करून कर्ज रकमेच्या परताव्याच्या संदर्भात वैयक्तीक हमी

तुम्ही वरील सदर कर्ज सुविधेच्या अटी आणि शर्तीनुसार वरील सदर मुदत कर्ज खात्यामधील व्याज तसेच मुद्दल रकमेचा परतावा करण्यास कसूर आणि टाळाटाळ केली आहे. बँकेने तुम्हा वारंवार विनंती करूनही आणि संधी देऊनही तुम्ही कर्ज खात्यातील थकीत रक्कम परतावा करण्यास कसूर आणि टाळाटाळ केली आहे. सध्या तुमच्या खातेमध्ये रक्कम थिकत आहे.

पुरेसा वेळ दिल्यानंतरही, कर्ज खात्यातील परतफेड नियमित नाही, म्हणून तुमचे खाते रिझर्व्ह बँक ु ऑफ इंडिया द्वारे जारी मार्गदर्शन तत्वे/निर्देशानुसार २६.०७.२०२३ पासून नॉन परफॉर्मिंग ॲसेटस् म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

१०.०६.२०२४ रोजीस तुमच्याद्वारे देय आणि थिकत रक्कम आहे. प्रदानापर्यंत मासिक आधारे ११.०६.२०२४ पासूनचे अनुक्रमे द.सा. १२.३०% पुढील चक्रवाढ व्याजासह कर्ज खाते क्र. ९०२६५००१००००४७३७ अंतर्गत रु. १,७७,०१,९२३/- (रुपये एक कोटी सत्त्याहत्तर

लाख एक हजार नऊशे तेवीस मात्र) इतकी आहे. या परिस्थितीमुळे आम्ही सारस्वत को - ऑपरेटिव्ह बँक लि. याद्वारे वरील सदर पतसुविधा परत मागवित आहोत आणि त्यामुळे सदर सुचनेच्या तारखेपासून **१५ दिवसांत** त्या अंतर्गत देय इतर प्रभार आणि संविदात्मक दराने ११.०६.२०२४ पासूनच्या पुढील व्याजासह १०.०६.२०२४ रोजीसची रु.१,७७,०१,९२३/ - (रुपये एक कोटी सत्त्याहत्तर लाख एक हजार नऊशे तेवीस मात्र) ची थकबाकी रक्कम बँकेला संयुक्तपणे आणि वेगवेगळी चुकती करण्यासाठी हमीदार म्हणून मुख्य कर्जदार आणि हमीदार म्हणून तुम्ही क्र. २ आणि ३ यांना बोलवणे करीत आहोत.

या बाबतीत जर तुम्ही सदर सूचनेच्या तारखेपासून **१५ दिवसांत** येथील वरील आवश्यकतेचे पालन करण्यास कसूर केल्यास बँक खर्च आणि परिणाम अशा तुमच्या जोखमीवर वरील सदर थकबाकीकरिता तुम्ही जमा केलेले पैसे समाायोजित करून बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीकरिता कोणत्याही अन्य योग्य कायदेशीर उपायांच्या अंतर्गत मल्टिस्टेट को- ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट २००२ आणि त्या अंतर्गत केलेल्या नियमांच्या अंतर्गत तरतुदींनुसार तुमच्या विरोधास योग्य ती कायदेशीर कारवाई सुरू करेल.

> सही/-प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता वसुली विभाग

मारस्वत को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड स्थावर मिळकतीचे वर्णन

जानकी सीएचएसएल., माऊली मंडळ, धोबी आळी, चरई, ठाणे- ४०० ६०१ अशा ज्ञात इमारतीमधील मोजमापित साधारण ४१० चौ. फू. बिल्ट अप क्षेत्र, बी-विंगच्या तळ मजल्यावरील जी १ येथे स्थित, वसलेला आणि असा तो सर्वे परिसर,

The spirit of Mumbai is now 95 years old!

FREE PRESS JOURNAL www.freepressjournal.in

MOTILAL OSWAL

कर्ज करार क. / कर्जदार /

HOME LOANS

मोतीलाल ओसवाल होम फायनान्स लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहिमतुल्ला सयानी रोड, परळ एसटी डेपोसमोर, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५, सीएस: ८२९१८८९८९८; संकेतस्थळ: www.motilaloswalhf.com, ईमेल: hfquery@motilaloswal.com

कब्जा सूचना (स्थावर मिळकत/तींकरिता)

(सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ च्या नियम ८(१) अन्वये) ज्याअर्थी, निम्नस्वाक्षरीकारांनी मोतीलाल ओसवाल होम फायनान्स लिमिटेड (पूर्वी ॲस्पायर होम फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. असे ज्ञात) चे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून सिक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ (५४ सन २००२) अन्वये आणि कलम १३(१२) सहवाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे खालील नमूद तारखेस मागणी सूचना जारी करून पढील कर्जदारांना सूचनेत नमूद रकमेची परतफेड सूचनेच्या प्राप्तीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत करण्यास सांगितले होते.

रकमेची परतफेड करण्यात पुढील कर्जदारांनी कसूर केली आहे, याद्वारे पुढील कर्जदार आणि सर्वसाधारण जनतेला सूचना देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी सदर ॲक्टचे कलम १३ चे उप कलम (४) सह्वाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ च्या नियम ८ अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून वरील वर्णन केलेल्या मिळकर्तींचा कब्जा येथे खालील नमूद केलेल्या तारखांना घेतला आहे.

मागणी सचनेची कब्जा

1	я. Я	सह कर्जदार/हमीदार यांचे नाव	तारीख आणि थकबाकी	घेतल्याची तारीख	वर्णन
१		एलएक्सकेएएल००११५–१६००१४४२३ दिलीप साधू निकम आणि साधू साडू निकम	०७-०६-२०१८ करिता रु. ६९६८८३/-	१८-०६-२०२४	फ्लॅट क्र.१०८, श्ला मजला, बी विंग, केरू प्लाझा, हिस्सा क्र.१०, कोनगाव रोड, सर्व्हें क्र.१६८, तालुका भिवंडी, जिल्हा-ठाणे-४२१३०२ कल्याण भिवंडी हायवे महाराष्ट्र इंडिया
	२	एलएक्सकेएचओ००११६-१७००३०७३८ सचिन लक्ष्मण जाधव आणि मंगल लक्ष्मण जाधव	२७-०२-२०२४ करिता रु.६४९५९२/-	१९-०६-२०२४	फ्लॅट क्र.१०३, १ला मजला, सी विंग, रिद्धी सिद्धी रेसिडेन्सी सीएचएस लि सर्व्हें क्र.२३० हिस्सा क्र.६/२, ७ आणि काल्हेर भिवंडी ४२१३०२ रायगड(महा) महाराष्ट्र
	AU.	एलएक्सपीएएन००३१५–१६००१७५१९ ग्रेगरी प्लस रॉड्रिप्ज आणि आकाश ग्रेगरी रॉड्रिग्ज	११-०५-२०२३ करिता रु. ९२४९४६/-	१९-०६-२०२४	फ्लॅट क्र.००२, तळ मजला, ए विंग, जानकी बाग, कोळेगाव, डोंबिवली (पूर्व), तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे, कल्याण, रायगड (महा) महाराष्ट्र ४२१२०४
	8	एलएक्सपीईएन००३१६-१७००४७५६१ ०८-०३- राजेश कुमार श्याम धारी यादव आणि करित ललिता राजेश कुमार यादव ह.८४६०५		१९-०६-२०२४	फ्लॅट क्र.३०४, ३रा मजला, बिल्डिंग क्र.१, सर्व्हें क्र.४३, हिस्सा क्र.६, गंगा अपार्टमेंट सीएचएस, वसुंधर व्हॅली कॉम्प्लेक्स, पिसावली, कल्याण, ठाणे, कल्याण, महाराष्ट्र ४२१३०१
	ч	एलएक्सव्हीआयआर००११४–१५०००२५५८ महेंद्र भीमासिंग पाटील आणि चित्रा महेंद्र पाटील	२५-०५-२०२१ करिता रु.११९५०४५/-	१९-०६-२०२४	फ्लॅट क्र.२०१, २रा मजला, गुरूधाम बिल्डिंग, कर्जत हायवे, वांगणी पश्चिम, डॉल्फिन स्कुल समोर, ठाणे, महाराष्ट्र- ४२१५०३

विशेषत: कर्जदार आणि सर्वसाधारण जनता यांना याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, सदर मिळकर्तीशी व्यवहार करू नये आणि सदर मिळकर्तीशी केलेला कोणतार्ह त्र्यवहार हा मोतीलाल ओसवाल होम फायनान्स लिमिटेड च्या येथे खालील नमूद रक्कम आणि त्यावरील व्याजाकरिता भाराअधीन राहील

तारण मत्तांचे विमोचन करण्याकरिता उपलब्ध असलेल्या वेळेच्या संबंधात ॲक्टच्या कलम १३ च्या पोट-कलम (८) च्या तरतुर्दीकडे कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

दिनांक: २४.०६.२०२४ *भाषांतरामध्ये त्रुटी आढळल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य धरण्यात येईल.

ठिकाण: महाराष्ट्र

प्राधिकृत अधिकारी

(मोतीलाल ओसवाल होम फायनान्स लिमिटेड)

स्थावर मिळकतीचे



(शेड्यल्ड बँक) वसुली विभाग : ७४-सी, समाधान बिल्डिंग, २रा मजला, सेनापती बापट मार्ग (तुलसी पाईप रोड), दादर (प), मुंबई-४०००२८. फोन क्र.: +९१ २२२ २४२२ १२०२ / ०४ / ०६/ ११ फॅक्स क्र.: +९१ २२ २४३८ १३१०

ई-लिलाव विक्री सूचना

(लिलाव विक्री / बोली फक्त वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net मार्फत करण्यात येईल)

दि सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स ऑण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (सरफैसी) ॲक्ट, २००२ अंतर्गत बँकेकडे प्रभारित जंगम/स्थावर मत्तेची विक्री.

निम्नस्वाक्षरीकारांनी **सारस्वत को–ऑप. बँक. लि.** चे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून कलम १३ (२) अन्वये मागणी सूचनेनुसार सरफैसी ॲक्टच्या कलम १३(४ अन्वये खालील मत्तेचा कब्जा घेतला

तमाम जनतेला कळविण्यात येते की, बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीकरिता खालील नमृद् खटल्यातील प्रस्तावित मत्तेचा ई-लिलाव (सरफैसी ॲक्ट, २००२ अंतर्गत खालील विनिर्देशानुसार '<mark>'जे आहे जेथे आहे तत्त्वाने'', ''जे आहे जसे आहे तत्त्वाने''</mark> आणि <mark>''कोणत्याही दायित्वाशिवाय''</mark> करण्यात येणार आहे

-	अ.	कर्जदार/ गहाणवटदार,	ए.	मागणी सूचनेची तारीख	मालमत्तेचे वर्णन	 राखीव किमत
١	क्र.	हमीदारांचे	बी	. मागणी सूचनेची रक्कम		॥. इअर
١		नाव	सी	. कब्जाचा प्रकार/तारीख		III. बोली वाढविण्याची
١			डी	. ३१.०५.२०२४ रोजीस		रक्कम
١				थकबाकी रक्कम		
١	?	कर्जदार /गहाणवटदार:	ए.	03.02.2023	कार्यालय क्र. सी-१२६, क्षेत्र	ı. é. 106.00 bml
١		मे. गजानन ॲग्रो इंडस्ट्रीज	बी.	रु. ६,८८,५८,६६९.७२	मोजमापित ४८८ चौ. फू.,	п. é. 1.10 bml
١				(रु. सहा कोटी अठ्ठयाऐंशी	१ला मजला, त्यासह	ш. é. 1.00 bml
-		भागीदार/हमीदार/गहाणवटदार:		लाख अञ्चावन्न हजार सहाशे	बेसमेंट लेव्हलवर राखीव कार	
١		१. श्री. दिलिप रघुनाथ पोळ		एकोणसत्तर आणि पैसे	पार्किंग जागा क्र. ३१३, २	निरीक्षणाची तारीख/वेळ
1		२. श्रीम. रोशना योगेश शेलार		बहात्तर मात्र) ३१.१२.२०२२	लेव्हल बेसमेंटमध्ये, ईर्स्टन	२९.०६.२०२४
١		३. श्री. दशरथ गोपाल तेली		रोजीस	बिझनेस डिस्ट्रिक्ट (पूर्वी मॅग्नेट	स. ११.०० ते दु. ०१.०० वा,
١			सी.	प्रत्यक्ष कब्जा/११.०३.२०२४	मॉल म्हणून ओळखले जाणारे),	इअर व केवायसी सादर
١			डी.	হ. ७,८९,८७,१२७/ -	नेपच्युन लिव्हिंग पॉईंट, जमीन	करण्याची अंतिम तारीख/वेळ
١				(रूपये सात कोटी	सीटीएस क्र. ३७२ (भाग) आणि	१२.०७.२०२४ सं. ५.०० वा.
١				एकोणनव्वद लाख सत्त्याऐंशी	३७२/१ ते ३७२/६५ (भाग)	ई-लिलावाची तारीख/वेळ
١				हजार एकशे सत्तावीस मात्र)	धारक, एलबीएस रोड, भांडुप	१५.०७.२०२४
- 1	1		1		(_\ ()	

"प्रदानाच्या आणि/किंवा वस्लीच्या तारखेपर्यंत पृढील प्रयोज्य व्याज, केलेले अनुषंगिक परिव्यय, खर्च, आकार इ. सहत लिलाव हा बँकेचे मंजुरीत सेवा पुरवठादार **मे. ई–प्रॉक्युरमेंट टेक्नॉलॉजीज् लिमिटेड (ऑक्शन टायगर)** द्वारे होईल. बोली अर्ज, सदर विक्री/लिलावाच्य अटी व शर्ती व बोली / प्रस्ताव जमा करण्याची पद्धत https://sarfaesi.auctiontiger.net या त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असेल.

(प), मुंबई-४०० ०७८.

सरफैसी ॲक्ट, २००२ च्या नियम ८(६) प्रमाणे वैधानिक सूचना ही सूचना म्हणजे विक्रीच्या तारखेपूर्वी संपूर्ण थकबाकी प्रदान करण्याकरिता सदर कर्जाच्या कर्जदार/सह–कर्जदार/हमीदार आणि गहाणदार यांना देखील एव सूचना आहे. कसूर केल्यास वर उल्लेख केलेल्या लिलावाच्या तारखेस मिळकत विकली जाईल.

ठिकाण : मुंबई (टीप : स्वैर भाषांतर तफावत आढळल्यास मूळ इंग्रजी ग्राह्म)

प्राधिकत अधिकारी सारस्वत को-ऑप. बँक लि.

दु. २.०० ते दु. ३.०० वा.

ढ फिनिक्स मिल्स लिमिटेड

ार्<mark>यालय :</mark> ४६२, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई ४०० ०९३. सीआयएन: L17100MH1905PLC000200

दर. : (०२२) ४३३३ ९९९९ ई मेल : <u>investorrelations@phoenixmills.com</u> वेबसाईट : <u>www.thephoenixmills.com</u>

सूचना कंपनीच्या इक्विटी समभागांचे गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी (''आयईपीएफ'') मध्ये हस्तांतरण

याद्वारे **सृचित** करण्यात येते की, कंपनी **(''कायदा'')** २०१३ चे कलम १२४ (६) आणि गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखांकन, अंकेक्षण, हस्तांतरण आणि परतावा) नियम २०१६ आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा **(''नियम'')** यांच्या अनुसार, कंपनीला असे सर्व समभाग त्यावरील लाभांशावर समभागधारकांनी सलग प्तात वर्षे दावा केलेला नाही, असे समभाग गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधीत **(''आयईपीएफ'')** हस्तांतरित करणे

गिर्धारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की, वित्तीय वर्ष २०१६-१७ दरम्यान घोषित लाभांश जो स्थानांतरण तारखेपासून सात व कालावधीकरिता अप्रदानित वा दावारहीत राहिला होता तो ऑक्टोबर, २०२४ मध्ये आयर्डपीएफकडे अप्रदानित लाभांश खात्यामध्ये जमा केला जाईल. लागोपाठ सात वर्षांकरिता दावारहित राहिलेल्या लाभांशासंदर्भातील अनुषंगिक शेअसंसुद्ध सदर नियमांतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार स्थानांतरित करण्यात येईल.

कपया नोंट घ्याची की विसीय वर्ष २०१६-१७ ट्राम्यान घोषित अपरानित/टावारहित लाधांत्र एकप्रेकरिता टाव कृत्यना नार, व्याप अनु । पराप वन १८५२-१६ ५६८-१४ । करण्याची निवत तारीख १९.१०,२०१४ अप्री आहे. सर्वोधित भाषासकानी कृत्या दि. ३००,९०,२०१ पर्यंत वित्तीत वर्ष २०१६-१७ व त्यापुढील कालावधीकरिताच्या अप्रदानित/दावारहित लाभा्शाचा दावा करणाऱ्या विनंतीसह कंपनी, कंपनीचे रजिस्टार व शेअर टान्सफर एजंटस यांच्याकडे अर्ज सादर करावा जेणेकरून नियत तारखेपुर्वी दाव्यांची प्रक्रिश

नियत तारखेपर्यंत संबंधित भागधारकांकडून दावारहित लाभांश व /वा शेअर्ससंदर्भात दावा करणारा कोणताही पत्रव्यवहा प्राप्त न झाल्यास. वरील नियमांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आयर्डपीएफ नियमांतर्गत विहित कालमर्यादेच्या आत वरील नेर्देशित आयईपीएफ प्राधिकाऱ्यांकडे लाभांश व अनुषंगिक शेअर्सचे स्थानांतरण करील.

यमांनुसार आयईपीएफकडे ज्यांचे शेअर्स स्थानांतरित करण्यात यावयाचे आहेत अशा सर्व संबंधित भागधारकांना नियमांच अनुपाननांतर्गत व्यक्तिगत सूचनासुद्धा पाठवण्यात येत आहेत.च्यांचे शेअर्स स्थानांतरित करण्यात यावयाचे आहेत. अशा भागधारकांची नावे व त्यांचे फोलिओ क्र. / डीपी आयडी - क्लायन्ट आयडी नमूद असलेला अहवाल कंपनीची वेबसाइट nttps://www.thephonexmills.com/investors वर अपलोड करण्यात आलेला आहे.

भासदांनी कृपया आयईपीएफकडे स्थानांतरित होण्यापूर्वी, वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता घोषित लाभांश व पुढील वर्षकरिताचे अप्रदानित /दावारहित लाभांश यांचा दावा करावा

आयईपीएफकडे समभागांच्या स्थानांतरणासंदर्भात भागधारकांनी कृपया नोंद घ्यावी की :

गदोपत्री स्वरूपातील भागधारणासंदर्भातः नियमांतर्गत आयईपीएफ प्राधिकाऱ्यांच्या डीमॅट खात्यामध्ये शेअर्सच्य स्थानांतरणाकरिता संबंधित भागधारकांद्वारे धारण केलेल्या मळ शेअर प्रमाणपत्रांच्या बदल्यात कंपनी ड्यप्लिकेट शेअ ामाणपत्रे वितरीत करील व अशा वितरणापश्चात संबंधित भागधारकांच्या नावे असलेली मूळ शेअर प्रमाणपत्रे आपोआ

इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील भागधारणासंदर्भात: पुढील कोणतीही सूचना न देता नियमांतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार आयईपीएफ प्राधिकाऱ्यांच्या डीमॅट खात्यामध्ये स्थानांतरित करावयाचे शेअर्सकरिता संबंधित भागधारकांचे डीमॅट खाते वळते केल कुपया नोंद घ्यांची की दावारहित लाभांश रक्कम आणि वरील प्रमाणे नमूद केलेल्या नियमांच्या अनुसार आयईपीए यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले समभाग यांच्या संदर्भात कंपनीकडे कोणताही दावा करता येणार नाही. तथापि

यापुढील अधिक माहिती/स्पष्टीकरणासाठी समभागधारक खालील व्यक्तींशी पत्रव्यवहार करू शकतात किंवा संपर्क साध

- कंपनी रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट, मे. लिंक इन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी १०१, १ ला मजला २४७ पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई ४०० ०८३. दूरध्वनी क्रमांक : + ९१ २२ ४९१८ ६२७० फॅक + ९१ २२ ४९१८ ६०६०. ई-मेल : iepf.shares@linkintime.co.in
- श्री मंगेश साटविलकर, डेप्युटी नोडल अधिकारी, इन्व्हेस्टर रिलेशन विभाग, द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड, ४६२ सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई ४०० ०१३, भारत दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ ३००१ ६६००. ई-मेल investorrelations@phoenixmills.com

फिनिक्स मिल्स लिमिटेड यांच्या करित गजेंद्र मेवार

कंपनी मचित सभासदत्व क्र. ए२२९४१

सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट ॲक्ट, 2002 (द ॲक्ट) च्या कलम 13(2) अन्वये सूचना कर्जदाराचे नाव नपीए दिनाक थकित रक्कम (रू.) गहाण मालमत्तेचा तपशील (ब) (क) (ड) (अ) 03.06.2024 1. कर्ज खाते क्र. HHLVSH00502564 फ्लॅट क्र. 1601, सोळावा मजला, 11.06.2024 रोजी रु. 63,60,651.88/-1. सबाना नसिरुद्दिन शेख बॉन्झर रेसिडेन्सी सीएचएसएल, सेक्टर रुपये त्रेसष्ठ लाख साठ हजार सहाशे 2. मुस्कान नसिरुद्दिन शेख 34ए, प्लॉट क्र. 05(जीईएस), ओवे-रक्कावन्न आणि अक्ट्याऐंशी पैसे फक्त) खारघर, तालका पनवेल, जिल्हा रायगड, नवी मुंबई-410210, महाराष्ट्र 05.05.2024 2. कर्ज खाते क्र. HHLTHN00380374 फ्लॅट क्र. 003, तळ मजला, ध्रुव 11.06.2024 रोजी रु. 11,61,795.05/-1 आनंद भवानी चनियाल (रुपये अकरा लाख एकसन्न हजार सात्रशे रेसिडेन्सी. विंग-के. फेज 'एक्सलन्सी', शाषाणे गाव, तालुका 2. पुरुपादेवी च्याण्णव आणि पाच पैसे फक्त) कर्जत, रायगड – 400707, महाराष्ट 03.06.2024 3. कर्ज खाते क्र. HHETHN00382429 फ्लॅट क्र. 003, तळ मजला, ध्रुव 11.06.2024 रोजी रु. 1.62.534.07/-1. आनंद भवानी चनियाल रेसिडेन्सी, विंग–के, फेज (रुपये एक लाख बासष्ठ हजार पाचशे . पुस्पादेवी 'एक्सलन्सी', शाषाणे गाव, तालुका ग्रौतीस आणि सात पैसे फक्त) कर्जत, रायगड - 400707, महाराष्ट अपार्टमेंट क्र. 1104, अकरावा मजला, 05.05.2024 4. कर्ज खाते क्र. HHLDUB00170891 10.06.2024 रोजी टॉवर - ए2, ड्युप्लेक्स-4, स्काय 1. गुरमीत सिंह ह. 7,44,75,101.50/- (रुपये सात कोटी 2. गुलदीप सिंह फॉरेस्ट, सेनापती बापट मार्ग, लोवर वव्वेचाळीस लाख पच्याहत्तर हजार एकशे एक आणि पन्नास फक्त) परळ, मुंबई-400013, महाराष्ट 5. कर्ज खाते क्र. HHLDUB00170884 अपार्टमेंट क्र. 1504, पधरावा-सोळावा 05.05.2024 10.06.2024 रोजी रु. 7,34,62,034.62/- (रुपये सात कोटी 1 राजय रमेश नारा मजला, (ड्युप्लेक्स-4), टॉवर - ए2, चौतीस लाख बासष्ठ हजार चौतीस आणि 2. साहिबा नारग इंडियाबुल्स स्काय फॉरेस्ट, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परळ डिव्हिजन, बासष्ठ फक्त) एल्फिस्टन रोड (पश्चिम), मुंबई-400001. महाराष्ट अपार्टमेंट क्र. एस-2607. सव्वीसावा 6 कर्ज खाते क्र. HHLLOW00094484 10.06.2024 रोजी

वर उल्लेख केलेल्या कर्जदारानी कर्ज खात्याची आर्थिक शिस्त पाळलेली नाही आणि कपनीने सर्वसामान्य व्यवहारात भरलेल्या हिशोब पत्रकानुसार प्रत्येक कर्जदाराकडे स्तभ 'ड' मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे थकित रक्कम आहे.

मजला. साऊथ ब्लॉक. इंडियाबल्स

स्काय फॉरेस्ट सेनापती बापट मार्ग

एल्फिस्टन, मुंबई-400013, महाराष्ट्र

कर्जफेडीमध्ये कर्जदारानी सातत्याने कुचराई केल्यामुळे कंपनीने कर्जदाराच्या कर्ज खात्यातील कर्ज रक्कम अनुत्पादक मालमत्ता(स्तंभ क मध्ये तारीख अनुसार) म्हणून प्रचलित प्रथेनुसार वगीकृत केली आहे. परिणामी, वरील कायद्याच्या कलम 13(2) खाली प्रत्येक कर्जदाराला सूचित करीत आहेत.

वरील परिस्थिती लक्षात घेऊन, कंपनी वर उल्लेख केलेल्या कर्जदारांना सूचित करीत आहे की, त्याने/त्यांनी ही सूचना प्रसिध्द झाल्यापासून 60 दिवसाच्या आत वर स्तभ 'ड' मध्ये दर्शविलेल्या थकित रकमेसह आजपर्यंतचे व्याज, खर्च आणि शुल्क संपूर्ण भरावे, तसे न केल्यास वर स्तभ 'ब' मध्ये उल्लेख केलेल्या गहाण मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा कंपनीला अधिकार राहील.

कृपया नोंद घ्या की सरफेसी कायद्याच्या खंड 13 च्या उपखंड (8) च्या तरतुदीं अन्वये ''कर्जदार सिक्युअर्ड क्रेडीटर यांची थकबाकीच्या सर्व किमती, शुल्क आणि खर्चासहच्या सर्व रकमेचा ताब्यात असेल्या मालमत्तेच्या विक्रीची जाहीर लिलाव सुचना, बाली, किमती आमत्रित करणे, जाहीर निवीदा किंवा खासगी करार प्रकाशित होईपर्यंत भरणा करू शकतो. पुढे याचीही नोंद घ्यावी जर कर्जदार उपरोल्लिखित वेळेत सिक्युअर्ड ॲसेट्स परत करू शकल नाही तर कर्जदार मालमत्ता परत करण्यास पात्र नसेल ।'

सरफेसी कायद्याच्या खंड 13 च्या उपखंड (13) च्या तरतुदीच्या दृष्टीने, आपण येथे विक्री, भाडेतत्वावर किंवा सूचनेत संदर्भित सुरक्षित मालमत्ता (त्याच्या व्यवसायाच्या सर्वसाधारण वर्ग व्यतिरक्त) सुरक्षित लेनदार च्या पूर्व लिखित समती शिवाय हस्तातरित करण्यापासून प्रतिबधित आहात.

स्थळ : नवी मुबई/रायगड/मुबई

कृते इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लि. प्राधिकृत अधिकारी

रु. 8.83.25.166.62/- (रुपये आठ कोटी

त्र्याऐंशी लाख पचवीस हजार एकश<u>े</u>

सहासष्ठ आणि बासष्ठ फक्त)

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated May 09, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, the "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

. अशोक कुमार पलरेचा उर्फ अशोक जैन

(त्याच्या भागीदारादारे)

2. सरोज जैन

3. महावीर मेडिकेअर



SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED

Our Company was originally incorporated under the provisions of the Companies Act, as 'SSL Pharma Sciences Limited', a public limited company, pursuant to a certificate of incorporation dated February 23, 2017, issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Solara Active Pharma Sciences Limited' pursuant to which a fresh certificate of incorporation dated March 25, 2017, was issued by the RoC. For further details of changes in name and changes in registered office, see "General Information" on page 52 of the Letter of Offer.

Registered Office: 201, Devavrata, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, Maharashtra, India; Telephone: +91 22 2789 2924 Corporate Office: 2nd Floor, Admin Block 27, Vandaloor Kelambakkam Road, Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post), Chennai - 600 127, Tamil Nadu, India; Telephone: +91 44 4344 6700

Contact Person: Suddapalli Muralikrishna, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investors@solara.co.in; Website: www.solara.co.in; Corporate Identification Number: L24230MH2017PLC291636

OUR PROMOTERS: ARUNKUMAR PILLAI, K R RAVISHANKAR AND PRONOMZ VENTURES LLP

ISSUE OF 1,19,98,755 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 375.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 365.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 449.95 CRORE* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY THREE FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON MAY 15, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 233 OF THE LETTER OF OFFER. *Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares. PAYMENT METHOD FOR RIGHTS EQUITY SHARES

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED ("OUR COMPANY") ONLY

AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE*	Face Value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)				
On Application	3.50	127.75	131.25				
Additional calls as may be decided by our Board/Rights Issue Committee from time to time	6.50	237.25	243.75				
Total (₹)	10.00	365.00	375.00				
*Forture and stalle on Bouncard Colondale and "Towns of the Long" on more 200 of the Latter of Office							

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on May 28, 2024 and closed on June 11, 2024 and the last date fo On Market Renunciation of Rights Entitlements was June 05, 2024. Out of the total 9,374 Applications for 1,73,82,868 Rights Equity Shares, 760 Applications for 4,12,673 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 8,614 for 1,69,70,195 Rights Equity Shares, which was 141.43% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on June 19, 2024, by our Company in consultation with BSE, the Designated Stock Exchange, the Lead Manager to the Issue and the Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee has at its meeting held on June 19, 2024, approved the allotment of 1,19,98,755 Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid Applications after technical rejections have been considered for $All ot ment. \ In the \ Issue, \ Nil \ Rights \ Equity \ Shares \ have \ been \ kept \ in \ abeyance.$

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below

ı	Applications	Number of Valid Application	No. of Rights Equity Shares accepted	No. of Rights Equity Shares accepted	, , , , ,	
ı		Received	and allotted against Rights	and allotted against additional Rights		
ı			Entitlement (A)	Equity Shares applied (B)		
ı	Eligible Equity Shareholders	8,304	90,42,526	23,56,894	1,13,99,420	
ı	Renouncees	310	5,99,335		5,99,335	
ı	Total	8,614	96,41,861	23,56,894	1,19,98,755	

2. Information regarding total Applications received

- mingo.y	7.55		rugino Equity chare application			rugino Equity chare another		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	8,571	91.43	1,63,36,652	2,14,41,85,575	93.98	8,304	1,13,99,420	95.01
Renouncees	803	8.57	10,46,216	13,73,15,850	6.02	310	5,99,335	4.99
Total	9,374	100.00	1,73,82,868	2,28,15,01,425	100.00	8,614	1,19,98,755	100.00
Life and Country to All the state of the Country to								

on for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on June 21, 2024. The instructions for unblocking of fundations from the Allottees of the Allottees of Allottees of the Allottees o in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on June 18, 2024. The listing applications were filed with both the BSE and NSE on June 19, 2024. The Company received the listing approvals from both the BSE and NSE on June 20, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on June 21, 2024. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice / Unblocking of ASBAAccounts" on page 233 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about June 25, 2024. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL and CDSL on June 21, 2024.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of SEBI as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on pages 225-228 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures" ${\it Disclaimer Clause of the BSE"} on pages 228 and 229 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited.$

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the NSE" on page 229 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of NSE. Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY. LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

Choice

Place: Navi Mumba

Date: June 22, 2024

Choice Capital Advisors Private Limited Sunil Pataodia Tower, Plot No. 156-158, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099, Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6707 9999 / 7919;

E-mail: solara.ri@choiceindia.com Investor Grievance E-mail: regulator_advisors@choiceindia.com

Contact Person: Nimisha Joshi / Mahima Shivratriwar Website: www.choiceindia.com/merchant-investment-banking SEBI Registration No.: INM000011872

should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" on page 21 of the LOF.

Cameo Corporate Services Limited Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India **Telephone:** 044 – 4002 0700:

E-mail: rights@cameoindia.com Investor Grievance E-mail: https://wisdom.cameoindia.com Contact Person: K. Sreepriya Website: www.cameoindia.com SEBI Registration No.: INR000003753

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Suddapalli Muralikrishna 2nd Floor, Admin Block, 27, Vandaloor Kelambakkam Road,

Keelakottaiyur Village, Melakottaiyur (Post), Chennai 600 127 Tamil Nadu, India. Telephone: + 91 44 4740 6700; Email: muralikrishna@solara.co.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue or post – Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 233 of the LOF.

For SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Suddapalli Muralikrishna Company Secretary and Compliance Officer

SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares and has in this regard, filed a Letter of Offer dated

May 09, 2024 (the "LoF") with BSE, NSE and SEBI. The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking, website of the Company at www.solara.co.in and website of the Registrar at https://rights.cameoindia.com/solara. Investors

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except pursuant to a an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Rights Entitlements and the Equity Shares may not be re-offered, resold, pledged or otherwise transferred except in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the Securities Act. The offering to which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or the Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the Letter of Offer / Abridged Letter of Offer, Rights Entitlement Letter and the Application Form should not be

forwarded to or transmitted in or into the United States at any time